### JINDAL PHOTO LIMITED

Ref: JPL/Sectt./Sept-24/086

September 3, 2024

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1
Block – G, Bandra-Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai –400051.
NSE Scrip Code: JINDALPHOT

The Deptt of Corporate Services The BSE Ltd. 25, PJ Towers, Dalal Street Mumbai – 400001. BSE Scrip Code:532624

Re: Disclosures under Regulation 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 we are submitting herewith copy of Public Notice published on 3<sup>rd</sup> September, 2024 in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) interalia stating that in case the email address is not registered by the shareholders with the Company / Depository Participant, please follow the process of registering the same as mentioned in the above said public notice.

This is for your kind information and records.

Yours truly,
For Jindal Photo Limited

PREETI Digitally signed by PREETI SINGHAL Date: 2024.09.03 12:47:22+05'30'

(Preeti Singhal) Company Secretary Encl: as above CORRIGENDUM TO PUBLIC NOTICE PUBLISHED ON AUGUST 03, 2024 FOR

SALE OF SECURED ASSETS OF M/S TOASHA VACCINES (INDIA) Asset Reconstruction Company (India) Ltd., CIN: U65999MH2002PLC134884 / www.arcil.co.in The Ruby, 10 th Floor, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400 028 CIN: U65999MH2002PLC134884 / www.arcil.co.in Branch Address- Arcil Office no. 1008, 11th Floor, Westend Mall, Janakouri District Centre, Janakpuri New Delhi-110058 Tel: - 011-41775206 Mob: - 8860122299 This is an Addendum to the Public Notice for Sale published on August 3, 2024 in

Financial Express - Delhi NCR (English edition) & Jansatta - Delhi NCR (Hindi The last date for submission of Bids is September 12, 2024 and the date of e-auction is September 13, 2024 instead of September 03, 2024.

All other terms and conditions mentioned in the Public Notice for Sale published on August 3, 2024 remain unchanged. SD/- Authorised Officer

Date: 03.09.2024 Place: New Delhi Asset Reconstruction Company (India) Ltd.

#### **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT-1)** 2nd FLOOR, S.C.O. 33-34-35, SECTOR 17-A, CHANDIGARH

Case No.: OA/510/2023 Summons under Sub-Section (4) of section 19 of the Act, read with Sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No. 22453

VS

**UNION BANK OF INDIA** 

M/S A.S. PACKAGINGS

1) M/s A.S. Packagings, Through its Proprietor Sh. Vikas Kumar Son of Sh. Naresh Kumar, Situated at Khasra No. 60311, Post Office Lodhi Majra, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh- 173205.

(2) Sh. Vikas Kumar son Of Sh. Naresh Kumar, Resident of House No.69, Phase-1, Housing Board Colony, Baddi, District Solan, Himachal Pradesh-173205

## SUMMONS

WHEREAS, OA/510/2023 was listed before Hon'ble Presiding officer/Registrar on 07.05.2024.

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 63,59,503/- (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :-

(I) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted:

(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application:

(iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv)You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in

the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale

of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on

15.10.2024 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this tribunal on this date 09.05.2024

#### DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT-3) GROUND FLOOR, S.C.O. 33-34-35, SECTOR 17-A, CHANDIGÀRH-160017 Case No. : OA/51/2022

Summons under Sub-Section (4) of section 19 of the Act, read with Sub-rule (2A) of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No. 15301 **UNION BANK OF INDIA** 

> VS **KARAMVIR**

(1) Karamvir S/o Amar Singh, Flat No.04, Maya Garden, Block-D, VIP Road, Zirakpur, Sahibzada Ajit Singh Nagar/ Mohali/ Ajitgarh, Punjab-140603.

Second Address: SCO No.1, Harmilap Nagar, Baltana, Distt. SAS Nagar, Sahibzada Ajit Singh Nagar/Mohali/Ajitgarh, Punjab-140603.

(2) Meena Devi W/o Shri Karmvir, R/o Flat No.04, Maya Garden Block-D, VIP Road, Zirakpur, Sahibzada Ajit Singh Nagar/ Mohali Ajitgarh, Punjab-140603.

SCO No.1, Harmilap Nagar, Baltana, Distt. SAS Nagar, Sahibzada Ajit Singh Nagar/ Mohali/ Ajitgarh, Punjab-140603. SUMMONS

WHEREAS, OA/51/2022 was listed before Hon'ble Presiding officer/Registrar on 01.03.2024. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice

on the said application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 24,48,285/- (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :-

(I) To show cause within thirty days of the service of summons as to

why relief prayed for should not be granted:

(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the

original application: (iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured

assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv)You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in

the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale

of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on **08.10.2024 at 10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this tribunal on this dated 02.03.2024

पंजाब नैशनल बैंक

shahar

Date: 02.09.2024, Place: Bulandshahar

#### NORTHERN RAILWAY INVITATION OF TENDERS THROUGH E-PROCUREMENT SYSTEM

Tender Notice No. 47 /2024-2025 Date: 02.09.2024 Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and or ehalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for

THE	Tender No.	er Brief Description		Closing Date	
01	19245042	SUPPLY, INSTALLATION & COMMISSIONING OF WATERLESS URINALS	100 NOS	23.09.24	
02	77249020 RGC	RUNNING CONTRACT FOR FITTINGS OF LEVEL CROSSING.	25000 SET	30.09.24	
03	77249019 RGC	RUNNING CONTRACT FOR CHECK RAIL ASSEMBLY	20000 SET	30.09.24	
04	19241941	POH MAINTENANCE KIT	36 NOS	30.09.24	
05	07240447	SET OF SIDE BUFFER ASSEMBLY	51 NOS	30.09.24	
06	02241955	HIGH CAPACITY INTER VEHICULAR COUPLERS	115 SET	04.11.24	

2731/24

**SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE** 

### FORM G

**INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR DWARIKADHISH SPINNERS LIMITED OPERATING IN** MANUFACTURING OF COTTON/POLYESTER YARN AND OTHER YARN AT 1, VILLAGE KOULI MAJRA, NEAR 66 KVA PSEB LALRU, DISTT. SAS NAGAR MOHALI, PUNJAB

(Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

**RELEVANT PARTICULARS** 

1.	Name of the corporate debtor along with PAN/ CIN/ LLP No.	Dwarikadhish Spinners Limited (AABCD0202D) & (U17115PB1984PLC019259)
2.	Address of the registered office	1, Village Kouli Majra, Near 66 KVA PSEE Lalru, Distt. SAS Nagar, Mohalli, Punja
3.	URL of website	Nil
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	1, Village Kouli Majra, Near 66 Kva PSEE Lalru, Distt. SAS Nagar Mohali, Punjab
5.	Installed capacity of main products/ services	Unit is not working Since one year.
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Unit has been said to be closed from past one year
7.	Number of employees/ workmen	Not Available
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	Details can be sought by sending a request to Resolution Professional at ip.dspinners@gmail.com
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	Details can be sought by sending a request to Resolution Professional at ip.dspinners@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	18.09.2024
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	28.09.2024
	Last date for submission of objections to provisional list	03.10.2024
13.	Last date of issue of final list of prospective resolution applicants	08.10.2024
14.	Date of issue of Information memorandum, evaluation matrix, and request for resolution plan to prospective applicants	13.10.2024
15.	Last date for submission of Resolution Plans	13.11.2024
16.	Process email id to submit Expression of Interest	ip.dspinners@gmail.com

Prem Chand Goyal, (Resolution Professional for M/s Dwarikadhish Spinners Ltd.

a company under CIRP

IP Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P01780/2019-2020/1271 Registered Address: House No. 1-F, Adjoining Municipal House Model Town, Patiala, Punjab-147001 Correspondence Address: Unit A-204, Second Floor, Elante Offices

Plot No. 178-178A, Industrial Area, Phase I, Chandigarh-160002 Date: 03.09.2024 Email: ip.dspinners@gmail.com Place: Chandigarh

## **KWALITY PHARMACEUTICALS LIMITED**

Regd. Office.:- VILLAGE NAGKALAN, MAJITHA ROAD, AMRITSAR - 143601 CIN:- L24232PB1983PLC005426; Phone no.:- 8558820862 Email Id:- ramesh@kwalitypharma.com; Website:- www.kwalitypharma.com

NOTICE OF 41<sup>37</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that in compliance with circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the 41" Annual General Meeting of the Members of the Company ("AGM") will be held on Tuesday, September 24, 2024 at 12:00 noon (IST) through Video Conferencing ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business set forth in the AGM Notice dated August 31, 2024.

In compliance with MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13 2020, Circular No 20/2020 dated May 05, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circulars"), and SEB Circular No. SEBI/HO/CRD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/ CFDPoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, ("SEBI Circulars") and all other relevant circulars issued from time to time; the Notice of AGM and Annual Report including the Audited inancial Statements for the financial year 2023-24 have been sent in electronic mode to the Members hose email IDs are registered with Company or the Depository Participant(s). In Compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Company is providing the facility to all its Members (holding shares either in physical or in electronic form) to exercise their vote on the resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means through e-voting platform ("remote e-voting") provided by National Securities Depository Limited ("NSDL") Further, it is also notified to the Members that:

 a) The remote e-voting period begins on Saturday, September 21, 2024 at 09:00 a.m. (IST) and ends on Monday, September 23, 2024 at 5:00 p.m. (IST). During this period, Members of the Company holding shares either in physical or electronic form, as on the record date/ cut-off date i.e. Monday, September 16, 2024 may cast their vote through remote e-voting.

A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Monday, September 16, 2024 will be entitled to avail the facility of remote e-voting or evoting during the AGM. The voting rights of shareholders shall be in proportion to the number of shares of the Company held by them as on the cut-off date.

The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on Monday, September 23, 2024. The Notice of AGM is available on the website of the Company at www.kwalitypharma.com, on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

) The manner of voting during the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been

Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email ids are not registered are requested to register their email addresses and mobile numbers through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to demat their holdings. furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share

Transfer Agent, M/s Bigshare Services Private Limited Shareholders holding shares in physical mode whose email ids are not registered are requested to provide their Folio No., Name of the Shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cs@kwalitypharma.com for procuring user id and password. Alternatively shareholders may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and

password for e-voting by providing above mentioned documents Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, September 16, 2024, may obtain Login ID and Password for remote e-voting by sending a request to evoting@nsdl.com and if the Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he can use his existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting. For details related to remote e-voting.

The Members who cast their vote through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again at the AGM. The Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to attend the AGM and cast their vote during the AGM.

The Company has appointed Mr. Rishi Mittal, Practicing Company secretary as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting prior to the AGM and e-voting process during the AGM in a fair and transparent manner. In case of any queries/grievances related to remote e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.com. By order of the Board of Directors

For Kwality Pharmaceuticals Limited

Date: September 01, 2024 Place: Amritsar

Ramesh Arora Managing Director DIN: 00462656

# punjab national bank

**POSSESSION NOTICE** ...the name you can BANK upon!

Authorized Officer, For Punjab National Bank, Circle SASTRA Head (Chief Manager)

CIRCLE SASTRA CENTRE, CIRCLE OFFICE BULANDSHAHR E Mail: - CS8212@pnb.co.in PH NO: 8171640088

Pnb

[Rule 8(1) Read with Section 13(4)]

Whereas The undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s as mention below table calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned in the table within 60 days from the date of notice(s)/ date of

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002.

The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of subsection (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealing with the properties will be subject to the charge of Punjab National Bank for an amount and other expenses until payment in full

	DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES:							
S	Name of the Branch	Name of the Account Borrower / Guarantor	Description of the property mortgaged	Date of demand notice	Date of possession notice affixed	Amount Outstanding as on the date of demand Notice.		
1	Kali Nadi Road, Buland shahar	M/s Max X Health Care Prop Rajesh Tomer A/C 656500KU00000785	One residential House measuring area 44.5 sqm situated at near mid Ganga Colony Bulandshahar in the name of Jagwati Devi W/o Rajendra Boundries as below: East: House Mukir, West: Rasta 10 feet Wide North: Rasta 12 feet wide, South: House Sheesh Pal ***Property details as per title deed***	19.02.2024	28.08.2024	Rs. 13,42,561.36 (Rs. Thirteen Lakh Forty Two Thousand Five Hundred Sixty One and Thirty Six Paisa Only) + Int. wef. 01.02.2024 + Other cost and expenses		
2	Kali Nadi Road, Buland shahar	M/s Nida Alpsankhyak Shiksha Samiti Prop Rizwan khan A/C 656500KU00000776	One Residential Plot which is not park facing admeasuring area 83.66 Sqm situated at Naya Gaon, Pargana Baran, District Bulandshahar in the name of Rizwan Khan S/o Vikar Khan <b>Bounded as:</b> East: Rasta 3.69 mtr wide, West: Plot Mubarik Ali, North: Rasta 3.69 mtr wide, South:	9.02.20	28.08.2024	Rs. 11,51,155.00 (Rs Eleven Lakh Fifty One Thousand One Hundred Fifty Five Only) + Int. wef. 01.02.2024 + Other cost and		

Rasta 3.69 mtr wide. \*\*\*Property as per title deed\*\*\*\*

# SILGO RETAIL LIMITED

Regd. Office: B-11, Mahalaxmi Nagar, J.L.N. Marg, Jaipur -302017 Rajasthan, India.

Phone: 0141-4919655; Website: www.silgo.in; Email: info@silgo.in CIN: L36911RJ2016PLC049036

NOTICE

Notice is hereby given that the Nineth (9th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Silgo Retail Limited ("Company") will be held on Saturday, 28th September, 2024 at 1:00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the ordinary business as set out in the notice of 9th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circulars dated 08th April 2020, 13th April 2020, 05th May 2020 and 13th January 2021, 14th December, 2021 and May 05th, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular(s)") Further Securities Exchange Board of India vide its circular dated May 13, 2022 followed by the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD//PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January 2023 and October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India permitting Listed entities to holding of AGM through VC/OAVM and to send their Annual reports in electronic mode ("SEBI Circular).

The electronic copies of the Notice of the 9th AGM along with Annual Report for the F.Y. 2023-24 including the Audited Financial Statement for the Financial year ended on 31st March 2024 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The dispatch of Notice of the AGM and the Annual Report for FY 2023-24 has been completed on 02nd September 2024. The above documents are also available on the Company's website i.e. www.silgo.in, website of the NSE Limited i.e. www.nseindia.com and website of the Central Depository Services (India) Limited i.e. www.evotingindia.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, asamended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering remote e-voting facility for its Members enabling them to cast their vote electronically in respect of the business to be transacted at the AGM of the Company. The Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility.

The remote e-voting will commence from 09:00 A.M on Wednesday, September 25, 2024, and ends on 05:00 P.M on Friday, September 27, 2024. The remote evoting shall not be allowed beyond the said date and time. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, September 20, 2024. The detailed instructions for remote e-voting process are mentioned at Notes of the Notice of AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also

participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their Any person who has acquired the shares and has become a member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and prior to the Cut-off date, shall be entitled to exercise his/her vote either electronically i.e. remote e-voting or e-

voting system on the date of the AGM by following the process mentioned in the In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542/43) or contact Ms. Tripti Sharma, Company Secretary of the Company at B-11, Mahalaxmi Nagar, J.L.N. Marg, Jaipur - 302017 (Raj.), Tel:

0141-4919655 and email cs@silgo.in. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, September 22, 2024 to Saturday September 28, 2024 (both days inclusive).

M/s A. Balani & Associates, Practicing Company Secretaries, (ACS 33646, CP 13773) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting and e-voting at the AGM will be declared on or before Monday, 30th September 2024. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website at www.silgo.in and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com for information of the Members besides being communicated to the Stock Exchange i.e. NSE Limited where the Company's shares are listed.

For Silgo Retail Limited Tripti Sharma Company Secretary & Compliance Officer

M. No: A52232

**KUMAR AUTOCAST LIMITED** 

Place: Jaipur

Date: 02.09.2024

#### Regd. Office: - C-179, FOCAL POINT, PHASE VI. LUDHIANA PB 141003 IN. CIN: - L27101PB1985PLC006100. Email Id: asood@kumarautocast.com

Telephone No: 0161-2672506, www.kumartautocast.com NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING,

### E-VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the

company will be held on Friday, 27th day of September, 2024 at 12.30 P.M. at the registered office of the company situated at C-179, Focal Point, Phase VI, Ludhiana Punjab-141010 India. The Notice convening the 39th AGM and instructions for e-voting, have

been sent on 02nd September, 2024 by electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with company/Depository Participant for communication purpose not registered with the company/Depository Participant for communication purpose. Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rule 20 of the Companies

(Management & Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management & Administration) Amendment rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing to the members the facility to exercise their right to vote by electronic means i.e remote e-voting and the business may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). E-voting facilities will be available at the link: http://www.evotingindia.com. from Tuesday, 24th September, 2024 (9.00 A.M) to Thursday, 26th September, 2024 (5.00 P.M). The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Members are requested to vote electronically as per the instructions given on the overleaf of the e-voting instructions slip as well as in the notice of 39th AGM. A person, whose name is recorded in the register of members or in the

register of beneficial owners maintained by the depositors as on the cut-off date i.e. 20th September, 2024 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting. Any person, who acquires shares of the company and become member of the company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 20th September, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at http://www.evotingindia.com

The Board of Directors of the company has appointed M/s Harshit Arora & Associates, Practicing Company Secretary, as the scrutinizer for conducting the e-voting of the AGM in a fair and transparent manner. Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act.

2013, Rule 10(1) of Companies (Management and Administration) Rules 2014 and as per Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books of the company will be closed from Friday 20th day of September 2024 to Friday 27th day of September 2024 (Both days inclusive) for the purpose of AGM. The notice of 39th Annual General Meeting, standalone audited financial

statements; director's report, auditor's report etc. will be available for inspection at the company's registered office during normal business hours on working days up to the date of the AGM. The aforesaid documents shall also be available on the website of the company (www.kumarautocast.com) and also on www.evotingindia.com In case of any queries, you may refer to the frequently asked questions

(FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the downloads section of https://www.evotingindia.com or contact CDSL at the following toll free no.: 1800-200-5523 and you may also address to compliance officer at email Id-asood@kumarautocast.com.

For Kumar Autocast Limited Sd/-Ajay Kumar Sood

Dated: 02.09 2024

Whole Time Director Punjab & Sind Bank

## JINDAL PHOTO LIMITED

CIN: L33209UP2004PLC095076

Regd. Off.: 19" K.M., Hapur-Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Dist Bulandshahr (U.P.) - 245408 Head Office: Piot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi- 110070 I. No.: 011-40322100, Email: cs\_jphoto@jindalgroup.com, Website: www.jindalphoto.com

#### Public Notice - 21" Annual General Meeting Notice is hereby given that 21" Annual General Meeting ("AGM") of Jindai Photo Limited ("the

Company") will be held through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of AGM which will be sent in due course of time in compliance with the applicable provisions of the Companies Act; 2013 and the rules made thereunder. In view of General Circular 09/2023 dated September 25, 2023 all other relevant circulars issued from time to time in continuation to this Ministry's General Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020, General Circular No. 02/2022 dated 5.05.2022 and General Circular No. 10/2022 dated 28.12.2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') permitted the holding of the Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing ("VC") facility or other audio-visual means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at a common venue. Similar relaxation has also been provided by the Securities and Exchange Board of India vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 all other relevant circulars issued from time to time ('collectively referred to Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in furtherance of

Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2023-24, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant. The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices.

The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2023-24 of the Company will be available on the website of the Company at www.jindalphoto.com and also be available on the website of the BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and, in due course of time.

The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only, detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. In case the email address is not registered with the Company / Depository Participant, please

follow the process of registering the same as mentioned below: Physical Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Linkintime

India Private Limited at delhi@finkintime.co.in giving details of Folio number,

Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back),

PAN(Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. Linkintime India Private Limited.) Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.)

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment if declared by company. Members may also note that if your e-mail id is registered with the Company/Depository

Participant, the login credentials for remote e-voting / e-voting during the AGM will be sent on the registered e-mail address along with the notice of AGM. However members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned above. Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM shall also be mentioned in the notice of AGM.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular(s).

For Jindal Photo Limited Preeti Singhal (Company Secretary)

AGGARSAIN SPINNERS LIMITED

Place: New Delhi

Date: 2<sup>rd</sup> September, 2024

Holding

### CIN No. L17297HR1998PTC034043 Regd. Office: 2nd Floor, SCO 404, Sector-20, Panchkula-134116

Website: www.aggarsainspinners.com NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Aggarsain Spinners Limited ("the Company") will be held on Monday, the 30th day of September, 2024 at 11.00 am at Hotel Shiraaj, Sector-10, Opp. Bus Stand, Panchkula-

134113 to transact the business as set out in the Notice of Annual General Meeting dated

Ph: 0172-4644666, 4644777, Email: aggarsainspinners@gmail.com

Copies of the said Notice of 31st AGM, Annual Report have already been sent through email to all the members whose email ids are registered with the Depository Participant or with the Company. Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address, whose email ids are not registered with the Depository Participant. The Company has completed the dispatch of Notice of AGM through mail and through courier on Monday, 02nd September, 2024. The Notice of the 31st Annual General Meeting (AGM) and the Annual Report for the financial year 2023-2024 is also available on the Company's website www.aggarsainspinners.com and Notice of AGM is also available on the website of the National Securities Depository Limited ('NSDL') www.nsdl.co.in

Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 amended upto date and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 1. The e-voting period will commence on Friday, 27th September, 2024 (10.00 a.m.) and

The Company is pleased to provide to Members the facility to cast their vote by electronic

means on all the resolutions set forth in the said Notice of AGM in terms of the provisions of

voting and at the venue of AGM is Monday, September 23, 2024 (Cut-Off Date). Members holding shares either in physical or dematerialized as on the Cut-off date may either caste their votes, electronically by following the instructions provided in Notice of AGM for NSDL

The cut-off date for the purpose of determining shareholders for voting through remote e

ends on Sunday, 29th September, 2024 (5.00 p.m.).

and CDSL both from a place other than the venue of AGM or at Venue of AGM through . Person who becomes a member of the Company after dispatch of Notice may obtain login credentials & details by sending request at evoting@nsdl.co.in . Voting through electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Sunday, 29th

September, 2024 and e-voting module shall be disabled thereafter and once the vote on

the resolution cast by the member, the member shall not be allowed to change it The facility for casting the vote through Ballot Paper will be made available at the AGM. and the Members attending the AGM who have not casted their vote by means of e-voting

shall be able to cast their vote at the AGM through Ballot Paper. The Members who have casted their vote by e-voting can attend the AGM but shall not be

entitled to cast vote again. A person whose name is recorded in the register of members maintained by the depository as on the cut off date i.e. Monday, September 23, 2024 shall be entitled to avail

the facility of e-voting as well as voting in the AGM. . Members are required to use their login id and password to vote electronically by following procedure of e-voting given in the notice of Annual General Meeting

In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the

"Downloads" section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at For any further grievances related to remote e-voting, members may call on the Toll-Free no. 1800 1020 990 or Contact Ms. Soni Singh, Assistant Manager, NSDL & Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, Trade World, 4th Floor, A Wing, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat

Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at the designated email IDs – evoting@nsdl.co.in in at

Telephone Nos 1800 102 0990, 1800 22 4430. In Compliance of applicable provisions of the Companies Act, 2013 and as a part of Green Initiative, The Company encourages the Members to provide/update their email addresses to enable the servicing of notice(s) document(s) Annual Report(s) electronically. The request for updating of records for members holding shares in physical mode shall be sent to the Company or RTA and In case of members holding shares in dematerialized mode then to the Depository Participant.

By Order of the Board of Directors of the Company For Aggarsain Spinners Limited

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Description of the

Date: 02/09/2024 Place: Panchkula

> POSSESSION NOTICE

Sunny Garg

Managing Director

DIN: 02000004

A Govt. of India Undertaking भारत सरकार का उपक्रम ZONAL OFFICE: First Floor, Satguru Tower, CP47A, Sector-E, Jankipuram, Lucknow Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Punjab & Sind Bank under the Securitisation and Reconstruction of

the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued Demand Notice calling upon the borrowers detailed below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, Guarantors and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with the Rule 3 of

section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the date as mentioned below. The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the mentioned properties and any dealings with the mentioned properties will be subject to the charge of the Punjab & Sind Bank for the amount/liability and interest thereon due from the borrowers as mentioned below. The borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the act in respect of

No.	& Guarantors	Claimed in Notice	Immovable Property	Date of Symbolic Possession	
			BRANCH: Civil Lines, Prayagraj		
	Borrower: M/s Janta Enterprises, Prop. Sartaj Husain, R/o 786/5A, Gaus Nagar, Kareli, Prayagraj. Guarantor: 1. Smt. Shaheen Bano, R/o 786/5A, Gaus	₹ 45,37,640.18 as on 30.06.2024 + Interest & other expenses w.e.f. 01.07.2024	All that part and parcel of the property situated at Part Portion Arazi No. 942 situated at Mauza Bamrauli Uparhar, Pargana & Tehsil-Sadar, Distt. Allahabad, <b>Measuring Area</b> : 66.92 Sq. Mtr., Bahi No. 1, Vol. No. 9210, Page No. 103 to 124, Sl. No. 2703 and registered on 24.05.2016, <b>Boundaries: East:</b> Part Portion of Arazi <b>West:</b> Plot Saddam Siddiqui <b>North:</b> Part Portion of Arazi <b>South:</b> G.T. Road.	02.09.2024	
	Nagar, Kareli, Prayagraj.  2. Sh. Naushad Hussain, R/o 786/5A, Gaus Nagar, Kareli, Prayagraj.	)))	All that part and parcel of the property situated at Part Portion Arazi No. 942 situated at Mauza Bamrauli Uparhar, Pargana & Tehsil-Sadar, Distt. Allahabad, <b>Measuring Area</b> : 142.20 Sq. Mtr., Bahi No. 1, Vol. No. 9210, Page No. 163 to 182, Sl. No. 2705 and registered on 24.05.2016, <b>Boundaries</b> : East: Part Portion of Arazi West: Part Portion of Arazi North: Part Portion of Arazi South: Part Portion of Arazi.		

financialexp.epapr.in

Place: Ludhiana

Date: 03.09.2024.

time available to redeem the secured asset

Name of Borrowers

Place: Lucknow

New Delhi

Authorised Officer, PUNJAB & SIND BANK

उल्लेख नहीं किया

बैक ऑफ़ बड़ीदा

बैंक ऑफ बड़ीदा, सेक्टर ६३ शाखा, प्लॉट नं. २७,

ब्लॉक एव-१/ए. सेक्टर ६३, नोएडा, यूपी

(ਜੇਲ आईडੀ viseno@bankofbaroda.co.in)

शुद्धि पत्र

दिनांक 31.08.2024 को इस समाचार पत्र में

छपे विज्ञापन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेत्

—नीलामी विकय नोटिस में उधारकर्ता

श्रीमती संजना यादव पत्नी श्री सुनील यदुवंशी

की सम्पत्ति अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है

इस संपत्ति को 08.10.2024 को होने वाली

ई-नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

गया है।

श्री अमरनाथ फाईनेन्स लिमिटेड

CIN:L74899DL1985PLC020194

पंजीकृत कार्यालय: 4883-84, द्वितीय मंजिल, मेन रोड, कुचा उस्ताद डाग,

चांदनी चौक, दिल्ली-110006

Email:amarnath01finance@gmail.com, Tel: 011-23953204/23392222

Website: www.sriamarnathfinance.in

उनतालीसवीं वार्षिक साधारण बैठक, रिमोट ई-वोटिंग एवं

किताबी बंदीकरण की सूचना

एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि अमरनाथ फाईनेन्स लिमिटेड के सदस्यों की उनतालीसवीं

साधारण बैठक शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को प्रातः 11:00 बजे "निस्कान संक्रीतन मंडल",

19/32-32, मोती नगर, (भगत देश राज चन्ना मार्ग),नई दिल्ली-110015 में एजीएम की सूचना

में निर्दिष्ट व्यवसायों के निष्पादन हेत् आयोजित की जायेगी, जिसे एजीएम के आयोजन हेत्

वितरित किया जा रहा है। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की एजीएम की सूचना इलेक्ट्रानिक

माध्यम द्वारा उन सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी/ डिपॉटरीज के पास पंजीकृत हैं, को

सितम्बर 02, 2024 को भेज दी गई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की

वेबसाइट (www.sriamarnathfinance.in) से डाऊनलोड की जा सकती है। कम्पनीज

अधिनियम, 2013 की धारा 108 साथ में पठित कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमन,

2014 ("नियमन") किसी भी वैधानिक सशोधन को मिलाकर अथवा उसके कुछ समय के

लिए पुनः अधिनियमित होने पर, एमसीए द्वारा निर्धारित निर्देशों पर, बिगशेयर सर्विसेस

प्राईवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम (आई-वोट) का प्रयोग कर एजीएम की

सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्ताओं पर सदस्यों को उनके वोट देने की सुविधा प्रदान करा रही

है। सदस्यों को वोटिंग का अधिकार उनके द्वारा शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 ("कट–ऑफ

रिमोट ई-वोटिंग का समय मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 प्रातः (9:00 बजे) से प्रारम्भ होकर

वीरवार, 26 सितम्बर, 2024 सयं (5:00 बजे) पर समाप्त होगा। इस अवधि के दौरान सदस्य

इलेक्ट्रानिकली अपना वोट डाल सकते हैं। उसके उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल को

बिगशेयर आई-वोट निष्क्रिय कर दिया जायेगा। वोटिंग की सुविधा, या तो इलेक्ट्रानिक

वोटिंग सिस्टम अथवा मत पत्र द्वारा वोटिंग साथ में एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और

जि सदस्यों ने पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, एजीएम में अपने वोट

के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा एजीएम से पहले

अपना वोट दे दिया है वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट देने के हकदार

एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यवसायों के मदों से सम्बन्धित कागजात कम्पनी के पंजीकृत

कार्यालय में कार्यदिवसों के दौरान निरीक्षण के लिए खुले हैं। सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं

प्रकटीकरण आवकश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 एवं कम्पनीज अधिनियम,

2013 की धारा 91 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण

किताबें शुक्रवार, 21 सितम्बर, 2024 से शुक्रवार 27 सितम्बर, 2024 (दोनों दिवस शामिल

एक व्यक्ति जिसने शेयर अधिग्रहण किये हों और एजीएम की सूचना को भेजने के बाद कम्पनी

का सदस्य बना हो और जिसका नाम कम्पनी के सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉटरीज द्वारा

बनाये गये लाभदाई भागीदार स्वामी के कथन कट-ऑफ तिथि ie. 20 सितम्बर, 2024 को

अंकित होगा, एजीएम आयोजन की सूचना को कम्पनी की वेबसाइट vizwww.sriamamathfinance.in.

स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट viz बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com, एवं बिगशेयर की

वेबसाइट viz https://ivote.bigshareonline.com पर देख सकता है। उक्त व्यक्ति अपने ई—वोटिंग

द्वारा अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग उपरोक्त एजीएम की सूचना में वर्णित प्रक्रिया का

पालन करके कर सकता है। सदस्यों को साथ में सूचित किया जाता है कि शेयरधारक/निवेशक

को ई—वाटिंग से सम्बन्धित कोई प्रश्न हो, तो वह अक्सर पूदे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यूज') को

संदर्भित कर सकते हैं और आई-वोट ई-वोटिंग मॉडयूल https://ivote.bigshareonline.com के

डाऊनलोड भाग पर उपलब्ध को संदर्भित कर सकते हैं अथवा ivote@bigshareonline.com पर

कृते श्री अमरनाथ फाईनेन्स लिमिटेड

हस्ता०/-

राकेश कपूर

(प्रबन्ध निदेशक)

कर) कम्पनी की उनतालीसवीं एजीएम के उदेश्य हेत बंद रहेंगी।

ईमेल कर सकते है अथवा 1800 22 54 22 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

तिथि : 02.09.2024

स्थान : नई दिल्ली

लॉट

सं.

तिथि") को धारित कम्पनी के चुकता इक्वीटी शेयर कैपीटल के अनुपात में होगा।

शेष पूर्वानुसार रहेंगी।

Bank of Baroda

गया है, हालांकि उन्होंने अनवर

📆 🕒 भारतीय स्टेट बैंक

तनावगुरत आरित प्रबंधन शाखा-।

12वां तल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)

ा टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001

दिनांक 22.08.2024 को इस समाधार पत्र में छपे

वेज्ञापन ई—नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता

को सुचित किया जातों है कि कर्जदार मैसर्स गर्ग

दाल एंड बेसन मिल्स और मैसर्स ज्योति

इंटरनेशनल और आवास ऋण की सम्पत्ति की

-- नीलामी दिनांक **27.09.2024** को होनी है, के मामले

में (सम्पत्ति नं. 2) मकान नं. 288, क्षेत्रफल 160 वर्ग

गज, डेरा गाजी खान, जिला रिफ्यूजी को-ऑपरेटिव

हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लि. जिसे अब तशण

मौतिक कबजा 28-08-2024 को ले लिया गया है।

शेष पूर्व सूचना के अनुसार ही रहेगा।

न्वलंब कहते हैं, पीतमपुरा, नई विल्ली–110034 का

इस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

# केरल : राजनीतिक सचिव व शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ आरोपों की जांच का एलान

तिरुवनंतपुरम, २ सितंबर (भाषा)।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के कुछ वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों सत्तारूढ लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) विधायक पीवी अनवर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच शीर्ष स्तर के एक अधिकारी से कराने की सोमवार को

घोषणा की। उन्होंने कोट्टायम में पुलिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह बयान दिया। बीच, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने भी सोमवार को कहा कि पार्टी और वामपंथी सरकार सभी आरोपों की गहन जांच करेगी। मख्यमंत्री ने कहा कि जो मद्दे उठाए गए हैं, उनका अत्यंत गंभीरता से समाधान किया जाएगा और पुलिस में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता कर्तई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नीलांबुर से विधायक अनवर ने पी शशि और एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) अजीत कुमार पर विश्वासघात और ईमानदारी से जिम्मेदारियां निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। अनवर ने आरोप लगाया कि कुमार ने मंत्रियों के फोन टैप कराए। इसके अलावा सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से उनके संबंध हैं और वह गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं। अजीत कुमार को मुख्यमंत्री का सबसे करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा

कि शीर्ष स्तर के एक अधिकारी का जिम्मा सौंपने का निर्णय लिया के आरोपों का विशेष रूप से को सभी आरोपों की जांच करने

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 िकम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन

के लिए विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) मामले में

आर्माट्रिक्स ऑटोमैशन्स प्राईवेट लिमिटेड ( CIN: U28299UP2024PTC195176 ) जिसका पंजीकृत कार्यालय है: बी 907, रतन प्लेनेट, नरमाऊ कल्याणपुर, कानपुर नगर, नरमाऊ, कानपुर नगर, नरमाऊ, उत्तर प्रदेश भारत, 209217

.....आवेदव

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "**उत्त**र प्रदेश राज्य" कानपर से "महाराष्ट्र राज्य" के मम्बर्ड मं उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 31 जुलाई, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल ( www.mca.gov.in ) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते, बी-2 विंग, 2रा तल, पं दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से

तिथि: 3 सित, 2024 विश्रान्त चिराग भाई दवे (निर्देशक) DIN: 10451285 पता: 5/503, एफएएम सोसाइटी, सेक-11, कैलाश उधान कोपर खैराने, नवी मुम्बई थाने,

कम्पनी वर्तमान पंजीकत पताः बी 907, रतन प्लेनेट नरमाऊ कल्याणपुर, कानपुर नगर, नरमाऊ, कानपुर नगर, नरमाऊ, उत्तर प्रदेश भारत, 209217

जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड J&K Bank इम्पेयर्ड एसेट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेट विपार्टमेंट (आईएपीएमडी) एम.ए. रोड़ श्रीनगर, कश्मीर -190001

> [नियम 8(1)] कब्जा सूचना

श्रीमती असमत आरा अधोहरताक्षरी वितीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनिर्माण एव प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिमृति हित (प्रवर्तन), नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12 के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंनें दिनांक 15.12.2023 को एक मांग नोटिस उधारकर्ता मैसर्स ओन्डर वेज वेगन टेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड उघारकर्ता), श्री निसार ह्सैन डार (मैनेजिंग डायरेक्टर/बंधकर्ता), श्रीमती शकीना निसार (डायरेक्टर), श्री खुर्शीद अहमद गलिक (गारंटर), श्री इरशाद अहमद यातू (गारंटर), श्री इमतियाज अहमद अहान्गेर (गारंटर) और श्री मुहम्मद युसूफ भीर (गारंटर) को नोटिस में उल्लिखित राशि 30.11.2023 के अनुसार रू. 10.97,70,510.68 (रूपये दस करोड संतानवे लाख सत्तर हजार पांच सौ दस और पैसे अड़सठ मात्र) साथ ही उस पर आकरिमक खर्च लागत और चार्जेज आदि को उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भगतान करने को कहा था।

ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता(Ť)/बधंककर्ता(Ť)/गारंटर(Ť) द्वारा उक्त राशि चुकाने मे विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता और विशेष रूप से गाएंटरों और आम जनता को एतद्वार सुचित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर ने नीचे वर्णित लंपित का भौतिक कब्जा, सी टी केस संख्या 1337 / 2024 में माननीय मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत कोर्ट द्वारा दिनांक 09.07.2024 को पारित आदेशों के अनुसरण में, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पितत सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत माननीय मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट में निहित शक्ति के अनुसार ले लिया है और इसे 31 जुलाई 2024 के दिन जम्मू एण्ड कश्मीर वैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते नीचे हस्ताक्षरकर्ता को सींप दिया है।

ऊपर वर्णित उधारकर्ता(Ť)/बधंककर्ता(Ť)/गारंटर(Ť) और विशेष रूप आम जनता को सम्पत्ति के साथ सौदा नहीं करने की सलाह दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के दिनांक 30.11.2023 के अनुसार बकाया राशि रू. 10,97,70,510.68 (रूपये दस करोड़ संतानवे लाख सत्तर हजार पांच सौ दस और पैसे अइसठ मात्र) साथ ही संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज और शेष के साथ शुल्क आदि भुगतान की तारीख तक देयथोग्य है।

वधारकर्ता( ॉ ) / बधंककर्ता( ॉ ) / गारंटर( ॉ ) का ध्यान ग्रतिमृति सम्पत्ति को भूनाने हेत् उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

• भूतल : ऑफिस स्पेस 240 वर्ग फीट

🕳 ऊपरी भृतल : फ्लैट ए 2 फ्रंट साईंड 3 बी एच के 1050 वर्ग फीट गाँव सतबारी तेहसील हीज खास नई दिल्ली लोट्स भवन अर्पाटमेंट में स्थित है जो श्री निसार हुसैन डार के नाम

दिनाक: 29.08.2024 स्थान : नई दिल्ली

(रणधीर कोतवाल) जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड

रजिस्ट्रर्ड ऑफिस कॉरपोरेट हेडक्वाटर्स एम. ए. रोड, श्रीनगर 190001 कश्मीर, इंडिया T +91 (0)194 2481 930-35 F +91 (0)194 248 1928 CIN: L65110JK1938SGC000048 E info@jkbmail.com W www.jkbank.net

जिंदल फोटो लिमिटेड

सीआईएन: L33209UP2004PLC095076 पंजीकृत कार्यालयः 19 किमी, हापुर-पुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावटी, जिला पुलंदशहर (यू.पी.) – 245408 मुख्य कार्यालयः प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी-1, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कूंज, नई दिल्ली- 110070 फोनः 011-40322100, ईमेलः cs\_jphoto@jindalgroup.com, वेबसाइटःwww.jindalphoto.co

# पब्लिक नोटिस – 21वीं वार्षिक आम बैठक

एतवड़ारा सुचित किया जाता है कि जिंदल फोटो लिमिटेड ('कंपनी') की 21वीं वार्षिक आम बैठक

('एजीएम') वीडियो वॉन्फ्रॉसिंग ('बीसी') /अन्य ऑडियो विज्ञाल साधनों ('ओएबीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी. ताकि एजीएम के नोटिस में निधारित अनुसार कारोबार किया जा सके, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में समय पर भेजा जाएगा। 25 सितंबर 2023 के सामान्य परिपत्र 09/2023 के मदेनजर इस मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5.05.2022 और सामान्य परिपन्न संख्या 10 / 2022 दिनांक 28.12.2022 (सामृहिक रूप से "एमसीए परिपन्न" के रूप में संदर्भित) के अनुक्रम में समय-समय पर जारी सभी अन्य प्रासंगिक परिपन्नों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा या अन्य ऑढियो विजुअल माध्यमाँ (ओएवीएम) के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भीतिक उपस्थिति के बिना, वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इसी तरह की छूट भारतीय प्रतिभृति और विनिभय बोर्ड ने भी अपने परिपन्न संख्या संबी / एक्जो / सीएफडी / सीएफडी-पीजोडी-2 / पी / सीआईजार / 2023 / 167 दिनांक 7 अवटूबर 2023 ('सेबी परिपन्न') और समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी प्रासंगिक परिपन्न ('सामृडिक रूप से सेबी परिपत्र के रूप में संदर्भित') के माध्यम से भी प्रदान की है।

सदस्य यह भी व्यान दें कि उपर्युक्त परिपक्षें के अनुसरण में और सरकार की गी-पीन पहल को आगे बढ़ाने के लिए, विलीय वर्ष 2023-24 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट का नीटिस केवल उन सदस्यी को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैतक में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के राहत कोरम के उद्देश्य से मिना जाएगा। कंपनी अपने समी सदस्यों को पहले की प्रथाओं के समान ई-बोटिंग और रिमोट ई-बोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है।

कंपनी के वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम के नोटिस की इं-कॉपी कंपनी की वेबसाइट www.jindalphoto.com पर उपलब्ध होंगी और बीएसई लिगिटेड (बीएसई) की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी और समय आने पर इसे और भी बेहतर बनाया

सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्वेश एजीएम नोटिस में दिए जाएंगे। यदि ईमेल पता कंपनी / ढिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं हैं, तो कृपया नीचे बताए अनुसार

पंजीकरण की प्रक्रिया का पालन करें: भौतिक रूप

लिकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की delhi@linkintime.co.in पर एक अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शैयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कीन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्च की शेयरधारक रव-सत्यापित स्क्रैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की ख-सत्यापित स्क्रैन की गई प्रति) का विवरण ईमेल पता पंजीकृत करने के लिए दिया गया हो। कृपया अपना बैक विवरण मूल रह चेक के साथ हमारे आरटीए (यानी लिंकड्नटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल इइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एचएच 2, एलएससी, सी−1 ब्लॉक, साविजी मार्केट कें पास, जनकपुरी, नई दिल्ली—110058) की भेजें, साथ ही फोलियों नंबर का उल्लेख करते हुए पञ्ज भी भेजें। खदि पहले से पंजीकृत नहीं है।

**ढीमैंट रूप** कृपया अपने विपॉकिटरी प्रतिमागी (ढीपी) से संपर्क करें और बीपी हारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कृपया कंपनी द्वारा घोषित लागांश भुगतान के लिए शेयरधारक अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण भी अपनेट करें।

सदस्य यह मी ध्यान वें कि यदि आपकी ई-मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिमागी के साथ पंजीकृत है, तो एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेशियल एजीएम के नोटिस के साथ पंजीकृत ई–मेल पते पर मेजे आएंगे। डालांकि जिन सदस्यों ने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे ऊपर बताए अनुसार ई—मेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम के द्वीरान रिमोट ई-बोटिंग / ई-बोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख एजीएम के नोटिस में भी

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाम के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए परिपक्त(त्रॉ) और सेबी परिपत्र(त्रॉ) के अनुपालन में है।

स्थानः नई दिल्ली

दिनाकः 02 सिसंबर, 2024

कृते जिंदल फोटो लिमिटेंड प्रीति सिंघल

(कंपनी सविव)

Can Fin Homes Ltd. CHICAGO CIAMARA DAPAT केन फिन होम्स लिमिटेड

शॉप नं. 4, चतुर्थ तल, एस.एल. टॉवर, निकट बैंक ऑफ महाराष्ट्र कामर्शियल बेल्ट, अल्फा-1, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) पिन-201308 मो.सं : 7625079164, 0120-4569974 CIN: L85110KA1987PLC008699

ई-मेलः greaternoida@canfinhomes.com

परिशिष्ट-IV-A [नियम 9(1) के परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम ||9(1) के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतू ई—नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **भौतिक** कब्जा **केन फिन होम्स लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, **श्री गौरव पुत्र रामवीरसिंह (उधारकर्ता) और श्री कपिल पु**त्र रामवीरसिंह की तरफ केन फिन होम्स लिमिटेड की 02.09.2024 तक बकाया राशि 😿. 20,40,000/- (रुपए बीस लाख चालीस हजार मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारो इत्यादि की वसूली के लिए 🛮 😿. 4491684.00 / —(रुपये चौवालीस लाख इक्यावन हजार **छः सौ चौरासी मात्र)** को दिनांक 20.09.2024 को **"जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है**" तथा "जो भी है वहाँ है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य रु. 3300000.00 / — (केवल तैंतीस लाख रूपये) तथा धरोहर राशि जमा रु. 330000.00 /- (रूपये तीन लाख तीस हजार मात्र) होगी।

संपत्ति का विवरण

गली नं.-05, संपत्ति नं.-23, द्वितीय तल खसरा नं.-03, ग्रीन मंडोस ओम नगर अर्थला लोनी जिला– गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं

उत्तरः प्लॉट नं.—22 दक्षिणः प्लॉट नं.24

पश्चिमः सड़क 40 फीट चौडी पूर्वः अन्य प्लॉट भार, यदि कोई हो: शुन्य

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें **केन फिन होम्स लिमिटेड** की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx) में उपलब्ध कराई गई हैं। ई—नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें।

तिथिः 02.09.2024 हस्ता. /-प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड स्थानः ग्रेटर नोएडा

पाता बरकार का गाउँकर सारीस कार्यातस, जाउँकरमा इतिया केंक्र भागर, प्रथम गात, किट्डी कार्य, मिकट गंकी जावास समिती नगर, अकारक-226010, सुर्वाच-0522-23660015, 2265003

शक्ति-पत्र इस सनाधार पाव लंखनक संस्करण में दिनाक 29.56.2024 को हमा द्वारा प्राक्षशित मेगा ई--गीलामी सूबना में क्र.सं. 1 घर लिखित s) क मेसर्स एल्मा साडीज (प्रोप: श्री जतीक अडमद पूज श्री खतील अहमद), ख. बी अतीकं अहमद पुत्र बी खलील अंडगद (प्रोप: मेसर्स एल्मा सादीज), 2) श्री मोहम्मद सईक पुत्र श्री खतील अष्ठमद के रहाते कर गजर अदाज करे। वह सरकंगी अधिनिवम 2000 की प्रासंगिक धाराओं के राष्ट्ररा बैंक के अधिकार पर प्रतिकल प्रभाव वाले प्राधिकत अधिकारी

Registered Office: 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 09 Sep 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

BHATINDA - 23660002080833

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form. which is made available before the commencement of auction.

> Manager AU Small Finance Bank Limited

INVIGORATED BUSINESS CONSULTING LIMITED

(Formerly Escorts Finance Limited) CIN: L70200CH1987PLC033652

Regd. Office: Plot No. 19, Industrial Area, Phase 2, Chandigarh - 160002 Phone: 0129-2250222; E-mail: ibcl@ibcl.ltd; Website: www.ibcl.ltd

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 36" ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that

1. The 36" Annual General Meeting ("AGM") of the members of Invigorated Business Consulting Limited ("Company") will be held on Friday, September 27, 2024, at 03:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ('Act') and the rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022, 10/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021 December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022, and September 25, 2023 respectively and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "Relevant Circulars"), to transact the business as set forth in the Notice calling the AGM.

The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year ("FY") 2023-24 will be sent to only those members whose email IDs are registered with Company/ Depository Participant(s) and the same will also be available on the Company's website at www.ibcl.ltd, website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of determining the quorum under Section 103 of the Act. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM.

Pursuant to the provision of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations; the Register of Members ("RoM") and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 20, 2024, to September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Manner of registering/ updating email addresses who have not registered/ updated their email addresses with the Company:

Members holding shares in physical form

Members holding shares in physical form and who have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their e-mail addresses by sending duly filled and signed Form ISR-1 (Form for registering PAN, KYC details or changes/ updation thereof) available on Company's website at https://www.ibcl.ltd/regulation-46.html to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. Alankit Assignments Limited at RTA Division, 2E/21, Jhandewalan Extension, New-Delhi - 110055. Members holding shares in electronic mode

Members are required to register/ update their e-mail address with their respective Depositary Participant ("DPs") for receiving all communications from the Company electronically

5. Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-Voting"). The manner of voting remotely ("remote e-Voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their

email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote

The login credentials for casting votes through e-Voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/ Alankit Assignments Limited/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in

(e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/ OAVM.

e-Voting will be able to vote during the AGM through e-Voting.

6. Manner of registering mandate for receiving Dividend:

No dividend has been recommended for financial year 2023-24. However, member are requested to update their bank details by submitting the Form ISR-1 and other relevant. forms available on Company's website at https://www.ibcl.ltd/regulation-46.html with Company's Registrar & Share Transfer Agent i.e. Alankit Assignments Limited with details of folio number in case share(s) held in physical form or update their bank details with their respective Depositary Participants ("DPs") in case share(s) held in electronic mode.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-Voting or e-Voting during the AGM.

क) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के

भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं पूर्ण भुगतान की

तिथि तक सर्वे

C) 15.02.2018

D) सांकेतिक कब्जा

A).02.07.2014

B).Rs.2,80,76,924.00 दिनांक 31.03.2024 तक औ

भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं पूर्ण भुगतान की

तिथि तक खर्चे

C)12.09.2014

D) भौतिक कब्जा

a) 26.10.2022

b) रु. 1,45,55,135.13 विनांक 31.03.2024 तक और

भविष्य का ब्याज, अन्य प्रमार एवं पूर्ण भुगतान की

तिथि तक खर्चे

c) 05.01.2023

D) भौतिक कब्जा

a) 13.09.2022

अनुसार + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रमार एवं पूर्ण

C) 24.11.2022

D) मौतिक कब्जा

a) 01.05.2015

अंतिम भूगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर मावी

ब्याज/उपार्जित ब्याज/अप्राप्त ब्याज के साथ-साथ

c) 06:08.2015

D) सांकेतिक कम्जा

a) 01.05.2015

b) फ. 4,37,82,005.00 दिनांक 31.03.2024 तक और पूर्ण ए

B) रु. 4,37,82,005.00 दिनांक 31.03.2024 तक और पूर्ण एव

भुगतान की तिथि तक खर्चे

आकरिनक व्यय, लागत, प्रभार आदि।

By the order of the Board For Invigorated Business Consulting Limited

Place: Faridabad

Date: September 02, 2024

Company Secretary

Arvind Kumar

सुरिवत

लेनदारों को

ज्ञात एनकम्बेन्स

का विवरण

ज्ञात नहीं

पंजाब नेशनल बैंक punjab national bank

...the name you can BANK upon! A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत आम जनता को ई--नीलामी बिक्री सूचना, अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई--नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

मण्डल शस्त्रा केन्द्र : उत्तरी दिल्ली पताः द्वितीय तल, विक्रांत टॉवर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 ई-मेंल : cs8292@pnb.co.in, मो. 011-44776099, +91-9310865921

नीलामी

की

तिथि एवं

19-09-2024

पूर्वाह 11.00

बजे से अपीह

04.00 बजे

19-09-2024

पूर्वां 11.00

बजे से अपींह 04.00 बजे

19-09-2024

पूर्वाह 11.00

बजे से अपीह

04.00 बजे

19-09-2024

पूर्वीह 11.00

बजे से अपीह

04.00 बजे

पूर्वीह 11.00

04.00 बज

19-09-2024

पूर्वाह 11.00

बजे से अपीड

04.00 बजे

19-09-2024

पूर्वाह 11.00

बजे से अपीह

04.00 बजे

पूर्वीक 11,00

बजे से अपाँह

04.00 বল

19-09-2024

पूर्वांड 11.00

बजे से अपाँछ

04.00 वजे

B) 6.50,000.00

C) 25,000.00

A) 22,28,000.00

B) 2,22,800.00

C) 25,000.00

B) 2,35,000.00

C) 10,000.00

A) 23,50,000.00

B) 2,35,000.00

C) 10,000.00

A) 42,50,000.00

B) 4,25,000.00

C) 25,000.00

B) 4,40,000.00

A) 44,00,000.00 | 19-09-2024

A) 23,50,000.00 | 19-09-2024

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पवित विशीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सन्पत्तियों के विक्रय हेतु ई—नीलामी विक्रय नोटिस । आन जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है के नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभृत जेनदार के पास बंधक / प्रमास्त है. का रचनात्मक / मोरिक / साकेतिक कब्जा. प्रतिभृति जेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्रासिक्त अधिकारी द्वारा जिया गया है. को "जहाँ हैं, जैसा है और जो कुछ भी हैं" के आपार पर नीचे वर्णित लालिका के अनुसार बेचा जाएगा । बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(री) और गारटर(री), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

खाते का नाम कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	अंतर्गत मांग सूचना की तिथि ख) बकाया राशि ग) सरफासी अधिनियम 2002 की घारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि घ) कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक	(रु. में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	W W
411 प्रमति विहार होरदल लाधी राज नई दिल्ली—100003 और वीपीओ शानदपुर रामपुर जीनपुर गूमी—209745, श्री प्रवीण कुमार सिंड (निदेशक सह गारंटर) पता. IE-606 गुरफिवर विहार प्रोकंट-5 सेक्टर सीएश-1 ग्रेटर नीएडा यूपी—201009 और वीपीओ शानंदपुर रामपुर जीनपुर गूपी—209745, श्रीमती नीतृ सिंह (निदेशक सह गारंटर) पता. एथ-198 ऋषा गुप्ता (निदेशक सह गारंटर) पता. २ए/ए एकता हाइट्स 56 राजा एससी मलिक रोड जाववपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल—700032, श्री कश्मीरी लाल गुप्ता (गारंटर) पता. बी—566 सेक्टर-04 रोडिणी नई दिल्ली—110085, श्रीमती प्रमा गुप्ता (गारंटर) पता: बी—5/6 सेक्टर-04 रोडिणी नई दिल्ली—110085, श्रीमती प्रमा	विस्टा, खसरा सं. 240, गांव- मोरटा, परगना जलालाबाद, लहसील और जिला- गाजियाबाद (यूपी) में स्थित, जिसका निर्मित क्षोत्रफल 1263.65 वर्ग मी., यह सम्पत्ति निपार्थ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेंड के नाम पर है। रिहायशी पलैट सं. ए-091 टावर-ए, प्रतोश सं. 9वी विना छत्त अधिकार को रिहायशी गुण कार्यांग्रेस काम्युक्ट मीजीज विस्टा कार्या	B) रु. 20,77,99,698.31 दिनांक 31.03.2024 तक और पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर भावी ब्याज/उपार्जित ब्याज/अप्राप्त ब्याज के साथ—साथ आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि।  C) 24-02-2017		् ब
जैन (गारटर) पता 1801 टावर—2 मींघं वलीज सिखाणा कंट्री सेक्टर—50 मुडमांब—122001 और ही मं. 49 केंट्र सदर बाजार झांसी यूपी—284401. श्री संजय बुमार सिंह (मारटर) पता पलैट मं. 413 विकसर ग्रीन प्लॉट मं. एफ—28 सेक्टर—50 नीएडा यूपी—201301 और 3405 ओबेरींग युद्धस टॉवर—ए ऑफ डब्स्यूई हाईचे इंटरनेशनल विजनेस पार्क के बगल में गोरंगांव मुंबई महाराष्ट्र—400063. श्री करण सिंह (गारंटर) पता मकान मं. 86 कावेरी विहार फंज—1 शहीद नगर आगरा यूपी—282001 श्री लक्ष्मण पेशवानी (मार्चटर) पता प्लॉट मं. 1 वार्ड मं. 30 कोंद्र मं. 1 कंप्रम नं. 78 / 1 मंजू तार टीली अबू रोड जिला सिरोही राजस्थान—307001 श्री लाल वद पेशवानी (गारंटर) पता प्लॉट मं. 1 वार्ड मं. 30 कोंद्र मं. 31 वार्ड मं. 32 कोंद्र मं. 33 कोंद्र मं. 34 कोंद्र मं. 34 कोंद्र मं. 35 वार्ड केंद्र मं. 35	सं. 240, गांव- मोस्टा, परगना जलालाबाद, तहसील और जिला- गाजियाबाद (यूपी) में स्थित, जिसका निर्मित बोजफल 1398:37 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति निपार्थ एंटरप्राइजेज ग्राइबेट लिमिटेड के नाम पर है।		C)25,000.00	व
दिल्ली—नरेला (481400) और सेक्टर—7, रोहिणी (302800)	फ्री होल्ड प्लॉट क्षेत्रफल 2 कनाल 6 मारला, खेवत नं.	A) 25.07.2017	A) 65,00,000.00	15

सर्स जब साई ट्रेडिंग कंपनी, पताः क्वार्टर नं. 41, रूम नं. एफ-3, प्रथम तल, पंजाबी कॉलोनी, नरेला, दिल्ली – 110040, श्री राजेंश अग्रवाल, पताः जी—125बी, गली नं. 5, जेएस कुटिया सत्संग कुटिया, पंजाबी कॉलोनी, नरेला, दिल्ली — 110040, श्री शिव चरण बंसल, पताः जी—512, जी ब्लॉक, गली नं. 10, राजधानी पब्लिक स्कूल के पास, पंजाबी कॉलोनी, नरेला, दिल्ली — 110040, श्रीमती शालिनी बंसल, पताः जी–512, जी कॉक, गली नं. 10, राजवानी पब्लिक स्कूल के पास, पंजाबी कॉलोनी, नरेला, दिल्ली — 110040, श्री मणि राम पुत्र श्री काशी राम, पताः गोप ोड, रामालरेबा, जिला पानीपत (हरियाणा). **श्रीमती बिमला देवी,** पताः 17 / 27, शक्ति नगर, दिल्ली, **श्रीमती विमला** गोयल, पताः 17 / 27, शक्ति नगर, दिल्ली

शाखा का नाम

एलयू पीतमपुरा दिस्सी(087810) मैसर्स केटीएमआर मेटल्स, पता - बी-108, देशवाल नगर, दिल्ली - 110009 पार्टनर: 1. श्री सुभाव मगन, पता: बी-108, देशवाल नगर, दिल्ली - 110009,

सीओवाई, सी / ओ 56 एपीओ

दिनाका : 02-09-2024, स्थान : नर्ज दिल्ली

2 श्री नवल मगन, पता : बी—108, देशवाल नगर, दिल्ली — 110009

4 दिल्ली किशनगंज (062000) 1. मेसर्स सोनी संस, 10 / 54, बी डी धैंबर्स, दकान नं. 12ए, डी बी गुप्ता रोड, करोल बाग, दिल्ली – **करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 90 वर्ग फीट, यह** 10005, 2. जसविंदर सिंह कोहली. 10 / 54. दुकान नं. 4. बी ढी चैबसं. जी बी गुप्ता रोड. करोल बाग, | **सम्पत्ति जसविंदर सिंह कोहली के नाम पर है।** दिल्ली-110005, 3. श्रीमती स्वीटी कोहली, पताः ए-1/105, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110085 ख) 10/54, दुकान नं, 12ए, बी डी चैम्बर्स, डी बी गुप्ता रोड, और मकान ने. 80, ब्लॉक 65, तृतीय तल, न्यू रोहतक रोड, नई रेलवे लाइन, करोल बाग, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 135 वर्ग फीट, यह विल्ली—110005

5 दिल्ली किशनगंज (082000) 1. रेखा सुनीश पत्नी सुनीश कुमार, पता: डब्ल्यूजेड-34ए, प्लॉट नं, 116, यली नं.09, गुरु नानक नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली 110018 2. सुनीश कुमार पुत्र श्री. के.के. नायर, पता: डब्ल्यू जेंड 34ए, प्लॉट मं. 116, गली नं. 09 युरु नानक

6 दिल्ली-एलयू पीतमपुरा (087610), मेसर्स एम पी एसोसिएट्स, 18 / 1091, पहली मंजिल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005, <u>और</u> 2054, दूसरी मंजिल, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद-121001 <u>और</u> ई—।।।/35, मोलस्बैंड एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110044 मान्या प्रतीक नैयर पुत्र विवेक नैयर, 18/1091, पहली मंजिल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली और: 2064, दूसरी मंजिल, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद-121001 गिरीश चंद गर्ग पुत्र स्वर्गीय हरीश चंद गर्ग, 343, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद गौरव गर्ग पुत्र गिरीश चंद गर्ग, 343, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद सीरभ गर्ग पुत्र गिरीश चंद गर्ग, 343, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद मनिंदर सिंह 🛮 दुकान नं. 4 (मुतल, छत अधिकार के बिना), संपत्ति पुराना नं. 312, ओबेरॉय पुत्र धनवंत सिंह ओबेरॉय, ए–304, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद, परवीन नैय्यर पत्नी विवेक नैय्यर, 2054, दूसरी मंजिल, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद-121001 <u>और</u> ए-304, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद

गान्यिक बंधक फॅक्ट्री भूमि एवं भवन, शेंड—1—सीं, औरग्रांगिक एरिय छथुआ जम्मू, यह सम्पत्ति मैससे केटीएमआर मेटल्स के नाम पर है। क्षेत्रफल १ कनाल लीज डोल्ड क) 10/54, दुकान नं. 4, बी डी चैम्बर्स, डी बी गुप्ता रोड.

🖁 19/1(1-13) गाँव दतोली. तहसील गन्नीर जिला सोनीपत में

रेथल, यह सम्पत्ति बिगला देवी के नाम पर है।

151 / 134 में से, खाता नं. 522 और किला नं. 50/12/2(0-13) | B) Rs7,69,13,340.85 दिनांक 30,06.2024 तक और

सम्पत्ति जसविंदर सिंह कोहली के नाम पर है। प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के संपत्ति सं. डब्ल्यू जेड ३४–ए पर निर्मित, प्लॉट संख्या--118, क्षेत्रफल 64 वर्ग गज, खसरा सं. 13 / 25 में b) रु. 26,79,039.36 मांग सूचना दिनांक 13.09.2022 व से, गांव केशोपुर, कॉलोनी जिसे गुरु नानक नगर के नाम से जाना जाता है, गली संख्या 9, नई दिल्ली-18, जिसमें पानी, बिजली और सीवर कनेक्शन है, साथ ही सीढ़ियाँ, मार्ग जैसी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए सामान्य अधिकार हैं, साथ ही भूतल पर अंदर एक स्कूटर पार्किंग, साथ ही आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और फ्रीहोल्ड

नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली 110018 <u>और:</u> निवासी: 21, एसआईजी-ग्रुप, टीएसजी, एच.क्यू, अधिकारों के साथ उक्त संपत्ति के तहत स्वामित्व अधिकार दुकान नं. ३ (भूतल, छत अधिकार के बिना), संपत्ति पुराना नं. ३१२, नगर निगम नया नं. 343, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद, क्षेत्रफल 19.926 वर्ग मी.

> नगर निगम नया नं. 343, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद, क्षेत्रफल 20,438 वर्ग भी. दुकान नं. 9 (मृतल, छत अधिकार के बिना), संपत्ति पुराना नं. 312, नगर निगम नया नं. 343, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद, क्षेत्रफल

40.876 वर्ग मी.

अंतिम भूगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर भावी

ब्याज/उपार्जित ब्याज/उज्ञाप्त ब्याज के साथ-साथ C) 25,000.00 आकस्मिक व्यय, लागत, प्रमार आदि। C) 06:08.2015 D) सांकेतिक कब्जा A) 01.05.2015 A) 80,00,000.00 b) फ. 4,37,82,005.00 दिनांक 31,03,2024 तक और पूर्ण एव B) 8,00,000.00 अतिम भुगतान की तिथि तक सविदात्मक दर पर भावी ब्याज/उपार्जित ब्याज/अप्राप्त ब्याज के साथ-साथ C) 25,000.00 आकस्मिक व्यय, लागत, प्रमार आदि। C) 06.08.2015 D) सांकेतिक कब्जा

बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुदि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://ebkray.in के मध्यम से ऊपर वर्णित नीलामी की तिथि और समय पर आयोजित की श्री विवेक कुमार, प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभृति लेनदार, पंजाब नैशनल बैंक



www.readwhere.com

जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : https://www.pnbindia.in, https://ebkray.in देखें।